



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, रविवार, 20 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 29, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2544/9-1-2020-04 टी0ए0-20

लखनऊ, 20 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-474

चूँकि, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत अचलगंज, जिला-उन्नाव का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या 153/9-1-2020-04टी0ए0-20, दिनांक 20 नवम्बर, 2020 जारी करके गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 2409/9-1-2020-04टी.ए.-20, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत अचलगंज, जिला उन्नाव के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1

नगर पंचायत अचलगंज, जिला उन्नाव का प्रादेशिक क्षेत्र

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	दिशा	सीमावर्ती ग्रामों के नाम और गाटा संख्याएं
1	अचलगंज	उत्तर	1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 126, 125, 127, 128, 166, 167, 168, 110
		पूर्व	172, 173, 174, 175, 193, 194, 196, 202, 203, 229, 230, 235, 243, 245, 246, 725, 727, 728, 735, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 756, 757, 763, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 1126, 1127, 1140, 1142, 1143, 1139, 1141, 1149, 1151, 1153, 1155, 1204, 1207, 1208
		पश्चिम	7, 9, 11, 12, 14, 54, 355, 356, 357, 361, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 387, 389, 391, 392, 480, 439, 440, 483, 484, 485, 489, 490, 492, 497, 512, 515, 516, 519
2	लोहचा	उत्तर	1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 30, 33, 79, 80, 43, 84, 96, 97, 98
3	कांटी	उत्तर	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 26, 35, 37
		पश्चिम	135, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 193, 194, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 285
4	हड़हा	पश्चिम	1, 2, 3, 6, 43, 43/2498, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 225, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 260, 259, 268, 269, 274, 284, 285, 286, 296, 297, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 461, 535, 536, 537, 544, 545, 546, 547, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1346, 1345, 1348, 1357, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1317, 1372, 1373
		पूर्व	1011, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1069, 1075, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1088, 1089, 1913, 1914, 1916, 1917, 2018, 2019, 2021, 2033, 2034, 2035, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2193, 2194, 2195, 2381, 2383, 2384, 2387, 2389, 2390, 2381, 2392, 2398, 2399, 2401, 2402, 2441, 2442, 2443, 2453, 2454, 2455, 2458, 2459, 2483, 2484, 2485, 2493, 2494, 2497, 2498

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	दिशा	सीमावर्ती ग्रामों के नाम और गाटा संख्याएं
		दक्षिण	1375, 1378, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1444, 1443, 1445, 1446, 1490, 1491, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1527, 1528, 1529, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1812, 1813, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2430, 2421, 2429, 2431, 2432, 2433, 2434, 2467, 2468, 2472, 2474, 2476, 2479, 2480, 2489, 2490

अनुसूची-2

नगर पंचायत अचलगंज, जिला उन्नाव में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र

क्रम-संख्या	ग्रामों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सम्मिलित क्षेत्र
1	अचलगंज	सम्पूर्ण क्षेत्र
2	हड़हा	सम्पूर्ण क्षेत्र
3	लोहचा	सम्पूर्ण क्षेत्र
4	कांटी	सम्पूर्ण क्षेत्र

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no-2544/IX-1-2020-04T.A.-20, dated December 20, 2020:

No. 2544/IX-1-2020-04T.A.-20

Dated Lucknow, December 20, 2020

WHEREAS notification no. 153/IX-1-2020-04T.A.-20, dated November 20, 2020 was issued and published in the *Gazette* with a *view* to invite Objections and Suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below as the transitional area for constituting Nagar Panchayat Achalganj in District Unnao as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, Objections and Suggestions received in pursuance of the said notification were disposed of vide Government order no-2409/9-1-2020-04T.A. -20, dated December 14, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution *read* with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance, is pleased to specify that the local area the limits of which is specified in Schedule-1 and Schedule-2 below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Achalganj in District Unnao.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Achalganj, District-Unnao

Sr. No.	Name of Village	Direction	Name of Boundary Village and Gata No.
1	Achalganj	North	1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 41, 43, 45, 46, 126, 125, 127, 128, 166, 167, 168, 110
		East	172, 173, 174, 175, 193, 194, 196, 202, 203, 229, 230, 235, 243, 245, 246, 725, 727, 728, 735, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 753, 754, 755, 756, 757, 763, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 774, 1126, 1127, 1140, 1142, 1143, 1139, 1141, 1149, 1151, 1153, 1155, 1204, 1207, 1208
		West	7, 9, 11, 12, 14, 54, 355, 356, 357, 361, 360, 362, 363, 364, 365, 367, 368, 387, 389, 391, 392, 480, 439, 440, 483, 484, 485, 489, 490, 492, 497, 512, 515, 516, 519
2	Lohcha	North	1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 30, 33, 79, 80, 43, 84, 96, 97, 98
3	Kanti	North	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 19, 26, 35, 37
		West	135, 142, 150, 151, 152, 153, 154, 162, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 193, 194, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 285
4	Hadha	West	1, 2, 3, 6, 43, 43/2498, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 225, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 260, 259, 268, 269, 274, 284, 285, 286, 296, 297, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 449, 450, 452, 453, 455, 456, 461, 535, 536, 537, 544, 545, 546, 547, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1346, 1345, 1348, 1357, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1317, 1372, 1373
		East	1011, 1013, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1069, 1075, 1074, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1088, 1089, 1913, 1914, 1916, 1917, 2018, 2019, 2021, 2033, 2034, 2035, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2193, 2194, 2195, 2381, 2383, 2384, 2387, 2389, 2390, 2381, 2392, 2398, 2399, 2401, 2402, 2441, 2442, 2443, 2453, 2454, 2455, 2458, 2459, 2483, 2484, 2485, 2493, 2494, 2497, 2498
		South	1375, 1378, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1444, 1443, 1445, 1446, 1490, 1491, 1494, 1496, 1497, 1499, 1500, 1527, 1528, 1529, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1812, 1813, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2430, 2421, 2429, 2431, 2432, 2433, 2434, 2467, 2468, 2472, 2474, 2476, 2479, 2480, 2489, 2490

SCHEDULE-2

Area being included in Nagar Panchayat Achalganj in District-Unnao

Sr. No.	Name of Villages/Revenue Villages	Included Area
1	Achalganj	Total Area
2	Hadha	Total Area
3	Lohcha	Total Area
4	Kanti	Total Area

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.